

## आजमगढ़ जहरीली शराब कांड: दवा फैक्ट्री के नाम था लाइसेंस, बना रहे थे शराब, नकली दवाएं भी बेच रहा था संचालक

अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़ Published by: उत्पल कांत Updated Wed, 23 Feb 2022 07:02 PM IST

ड्रग विभाग की टीम ने अवैध शराब फैक्ट्री से 4.70 लाख की दवा बरामद की है। फैक्ट्री में नकली शराब के साथ ही नकली दवा भी बनाए जाने की जानकारी होते ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।



आजमगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र के रूपईपुर में दवा फैक्ट्री के लाइसेंस के नाम पर शराब की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। पुलिस की सूचना पर औषधि विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची थी और फैक्ट्री संचालक नदीम के भाई फहीम के माहुल कस्बा स्थित मेडिकल स्टोर को भी सीज कर दिया। मौके से 4.70 लाख की दवा बरामद की गई है।

रूपईपुर में चल रहे अवैध शराब फैक्ट्री को ड्रग विभाग द्वारा दवा बनाने का लाइसेंस दिया गया था। इसी लाइसेंस की आड़ में अवैध शराब का कारोबार संचालित हो रहा था। मंगलवार की रात पुलिस की छापेमारी के बाद बुधवार की सुबह ड्रग विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई।

टीम ने एक अवैध शराब कारोबारी फहीम के माहुल स्थित मेडिकल हाल पर भी छापा मारा और उसे सीज कर दिया। ड्रग विभाग की टीम ने अवैध शराब फैक्ट्री से लगभग 4.70 लाख की दवा भी बरामद करने का दावा किया है। फैक्ट्री में नकली शराब के साथ ही नकली दवा भी बनाए जाने की जानकारी होते ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।

फहीम अपने मेडिकल हाल की आड़ में आसपास के दवा की दुकानों पर नकली दवाओं की भी आपूर्ति करता था। ड्रग इंस्पेक्टर अरविंद कुमार ने बताया पुलिस की सूचना पर औषधि विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। वहां से कफ सीरप समेत कई नकली दवाएं भी बरामद की गईं। मेडिकल स्टोर सीज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि पूछताछ में पूर्व सांसद और सपा नेता रमाकांत यादव के रिश्तेदार व अनुज्ञापी रंगेश ने बताया कि बीते तीन माह से उसके ठेके से रूपईपुर में बन रहे अवैध शराब की बिक्री की जा रही थी। बता दें कि जहरीली शराब को पीने से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है तो वहीं दर्जनों की संख्या में लोग बीमार हैं और विभिन्न अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं।

Source: <https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/azamgarh/azamgarh-poisonous-liquor-case-license-was-in-the-name-of-drug-factory-was-making-liquor-operator-was-also-selling-fake-medicines?pagelD=2>